

Corporate Office: Plot No.18, Sector-35, Gurugram - 122004, Haryana (India) • Tel.: +91-124-4566300, 4786000 E-mail: devyani@dil-rjcorp.com • Website: www.dil-rjcorp.com; CIN: L15135DL1991PLC046758

November 12, 2024

To,

National Stock Exchange of India Ltd.	BSE Limited
Exchange Plaza, Block G, C/1, Bandra Kurla	Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051	Dalal Street, Mumbai – 400 001
Email: <u>cmlist@nse.co.in</u>	Email: corp.relations@bseindia.com
Symbol: DEVYANI	Security Code: 543330

Sub: Publication of extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2024

Dear Sir/ Madam,

In compliance with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed extracts of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2024 as published in the Newspapers.

This is for your kind information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully, for **Devyani International Limited**

Pankaj Virmani Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above



	Tel:	DEVYANI INTERN Corporate Identification Num Registered office: F-2/7, Okhla Indu Corporate office: Plot No-18, Sect +91-124-4566300, E-mail: companysecret	ber: L15135DL19 strial Area, Phase- tor-35, Gurugram -	91PLC046758 I, New Delhi-11002 122004, Haryana	10
YOY	No outle 1,93	ets Revenue		Reported EBITDA INR 1,987 Mn	
	ZABI	ranchise Agreements for 3 new brands "te			
		idated financial results for the quarter 33 read with Regulation 47 (1) (b) of th			
				(₹ in million, e	xcept per share da
	SI. No.	Particulars	Three month ended o 30 September 202 (Unaudited	n date 4 30 September 2024	Three month ended o 30 September 202 (Unaudited
100 B 100 B	1	Total revenue from operations	12,221.5		8,194.7
	2	Profit/(loss) before exceptional items and tax	(39.10		330.0
	3	Profit/(loss) before tax	(39.10		190.
ADED FRIES www. Maint	4	Net profit /(Loss) for the period	(49.21		358.3
	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	861.1	3 1,155.02	255.0
- Dest n- 10.94	6	Equity Share Capital (face value of INR 1/- each	1,206.2	7 1,206.27	1,205.8
.262	7	Other equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet			
al and	8	Earnings Per Share (of INR, 1/- each) (not annualised for quarters)			
250		(a) Basic	0.00	• 0.25	0.3
		(b) Diluted	0.00	• 0.25	0.3
	*Rr	unded off up to two decimal places	• 1		
a drille	Ser	accompanying notes			
	2. T	he above is an extract of the detailed format o under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligat full format of the quarterly financial results a www.bseindia.com and www.nseindia.com) and The previous period/year numbers have been current period/year presentation. The impact Inancials results. hese standalone and consolidated financial res 2024 have been reviewed and recommended Committee and accordingly approved by the Bi the Company") at their respective meetings	ions and Disclosure are available on th d on Company's wet regrouped/reclassif of such reclassifica sults for the quarter for approval by the oard of Directors of	Requirements) Reg e websites of the site (www.dil-rjcor ied wherever neces tion/regrouping is r and half year endec a Audit, Risk Manag Devyani Internation	ulations, 2015. T Stock Exchang p.com). sary to conform not material to t i on 30 Septemb gement and Ethi al Limited ("DIL"
		conducted a limited review of these financial resi The key standalone financial information of the C		laur	AND LONG
TA			Three months	Year to	(₹ in millior Three months
Cos	SI. No.	Particulars	ended on	date	ended on 0 September 2023 (Unaudited)
	1	Total revenue from operations	8,356.37	16,755.21	7,787.39
	2	Profit before exceptional items and tax	33.11	429,46	240.45
Department	3	Profit before tax	33.11	429.46	240.45
83	4	Net profit /(Loss) for the period	10.21	326.75	411.01
Ra > + B	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7.91	323.00	410.64

Place : Gurugram Dated : 11 November 2024

1



For and on behalf of Board of Directors of Devyani International Limited Sd/-Manish Dawar Whole time Director & CFO DIN: 00319476

7.22,420

....

50 years of opinion that shapes opinions.



Environment Curbs on c-devices to Impact 50% of US-baima uses

Business

tandard

STAR HEALTH AND ALLIED INSURANCE COMPANY LTD

🚺 businessstandard 🗙 bsindia 🔘 business.standard

business-standard.com

RepL Office: #1, New Tank Street, Valluevar Kottam High Ruad, Nungandrakkam, Cheenai - 600 034. Curp. Office: Nir 149, Acropolis, Dr. Kadhakriohnan Saloi, Mylapore, Chemna: - 60000, Tci: 0404 47989700 Wielnsite: www.starhealth.in Email: investors@btarhealth.in CIN: L66010TN2005Pt.C056649 (RDA1 Registration No. 129

Health Insurance Health Insurance Specialist

Promium earned (Not)

....

Particulars

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF-YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

REVENUE ACCOUNT FOR THE HALF-YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

	BALANCE SHEET AS AT SE	PTEMBER 30, 2024		
(Rs. in Laktus)			(Rain Lak	
ded	Particulars	As At Sep 30, 2024	As Al Sep 30, 2823	
in annual statemented	SOURCES OF FUNDS	1.4404		
6.24.933	Shaw Capital	58,757	58,427	
1.645	Share Application Money Pending Allotment			
10-11-1	Reserves and Supkes	6,21,724	6,02,834	
28,017	Fair Value Change Account	1.00 L 100		
G1 (1	- SHAREHOLDERS' FUNDS	8,735	4,050	
	- POLICYHOLDERS' FUNDS	12,276	5,764	
	Borrowings	47,000	47,00	
(D. 2	TOTAL	7,48,492	7,18,08	
61	APPLICATION OF FUNDS	1111-12-11		
	Investments - Shareholders	6,83,072	5,79,26	
1	Investments - Policyholders	9,60,007	8,22,740	
54,656	Losins		100.010	
19,050	Fixed Assets	18,495	12,43	
	DEFERRED TAX ASSET (NET)	40,246	50,80	
85,485	(1)	17,01,820	14,65,230	
13,685	Current Assets			
18,220	- Cash and Bank Balances	29,481	26,698	
18,220	- Advances and Other Assets	1,40,765	95,774	
36,436	Sub-Total (A)	1,70,246	1,22,465	
30,436				
1	Current Liabilities	2,90,862	2,06,734	
36.436	Provisions	8,32,712	7,34,737	
	Sub-Total (B)	11,23,574	9,41,47	
	NET CURRENT ASSETS = (A - B) (2)	(9,53,328)	(8,19,002	
	MISCELLANEOUS EXPENDITURE			
36,436	(to the extent not written-off or adjusted) (3)	1. Start 1.		
	DEBIT BALANCE IN PROFIT & LOSS Account. (4)	5	71,847	
	TOTAL (1+2+3+4)	7,48,492	7,18,084	

2	Profit / (Loss) on Sale / Redemption of Investments	6,391	1,645
3	Interest, Dividend & Rent - Gross	31,577	28,017
4	Other		
	(a) Other Income	- 1	G.
	(b) Contribution from Sharoholders' Account		
_	(i) Towards excess Expense of Management	. 5.	
	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs SH	237	61
	(iii) Foreign Exchange gain / (loss)	(1)	
	(iv) Others		
_	TOTAL (A)	7,60,624	6,54,656
5	Claims locared (Not)	5,67,476	4,19,050
6	Commission	97,771	85,485
7	Operating Expenses related to Insurance Business	1,22,607	1,13,685
8	Promium Deficiency	-	94
_	TOTAL (B)	7,27,854	6,18,220
5	Operating Profit / (Loss) C = (A - B)	32,778	36,436
10	APPROPRIATIONS		
	Transfer to Shareholders' Account	32,770	36,436
	Transfer to Catastrophe Reserve	-	22
	Transfer to Other Reserves (to be specified)	12 - a	2000
	TOTAL (C)	32,779	36,436

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE HALF-YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024

Şi Na	Parliculars For the Half-Year Ended For the Half-Year Sep 30, 2024 Sep 30, 20					
1	OPERATING PROFIT / (LOBS) - Miscellaneous Insurance	32,770	36,436			
2	NCOME FROM INVESTMENTS					
	(a) interest, Dividend & Rent - Gross	20.524	19.726			
	(b) Profit on Sale of Investments	4,547	1,158			
	(c) Loss on Sale of Investments	-	-			
	(d) Amortization of Promium / Discount on Investments	1,944	2			
3	OTHER INCOME					
-	(a) Provision written back	25	+			
	(b) Interest on Income Tax Refund	13	-			
	(c) Oftens	92	145			
	TOTAL (A)	59,915	57,455			
4	PROVISIONS (Other than Taxatian)		C-025			
-	(a) For diminution in the value of investments	+	+			
	(b) For doubtful dictes	5	28			
	(c) Others	12 ⁸¹				
5	OTHER EXPENSES					
-	(a) Expenses other than these related to insurance Basiness	0				
	(b) Bad dotts written of	Ť	1.1			
	(c) Interest on subordinated debt	2,053	2.062			
	(d) Expenses towards CSR activities	55	61			
	(e) Penalties					
	(f) Contribution to Policyholders' A/c					
-	(0 Towards Excess Expenses of Management					
-	(ii) Towards remuneration of MD/CEO/WTD/Other KMPs	237	61			
	(ii) Others					
	(a) Othera	68	160			
	TOTAL (B)	2,419	2,320			
6	Profit / (Loss) Before Tax (A - B)	57,495	55,145			
7	Provision for Taxation					
	(a) Current Tax	18.000	7,76			
	(b) Deferred Tax	(4,428)	6.085			
	(c) Tax rotating to earlier years	(4,44)	6,000			
8	Profit / (Loss) After Tax	43,021	41,314			
9	APPROPRIATIONS		41,314			
-	(a) Interim Dividends paid during the year					
-	(b) Final Dividend Paid		-			
	(c) Transfer to any Reserves or Other Accounts					
	Balance of Profit / (Loss) brought forward from last year	(28,660)	(1,13,161			
	Balance carried forward to Balance Sheet	14.361	(71,847)			
	This Public Disclosure is made in accordance with the IRDAI Circular No. IR The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter app	DAUF&A/CIR/MISC/256/09/2021 duted 30th September 2021	on Public Disclosure by Insurers			
	IRDAI Registration No. 129 Dated 16 Mar 2006 / Date of Renowal with IRDAI - Jac	알았던 것같은 것은 것 같은 것 같은 것을 가지 않는 것 수 있는 것 수 있다. 나는 것 수 있는 것 수 있는 것 같은 것 같이 있다. 것 같은 것				
	SHA/2024-25/PRINTX02: Insurance is the subject matter of solicitation. For more concluding a sale. IRDAI clarifies to public that IRDAI or its officials do not involve					

KEY ANALYTICAL RATIOS

		RATIO / PERCENTAGE			
SI No	Particulars	For the Half-Year Ended Sep 10, 2024	For the Half-Year Ended Sep 30, 2023		
1	Gross Direct Promium Growth Rate	16.96%	18.10%		
2	Cross Direct Promium to Networth ratio	1.15	1.13		
3	Growth mits of Networth	7.32%	8.50%		
4	Nut Rutoniun Ratio	91.05%	94.99%		
5	Nut Commission Ratio	13.68%	13.475		
6	Expense of Management to Gross Direct Premium Rate	31.45%	30.93%		
7	Expenses of Management to Not Written Premium Ratio	30.81%	31.38%		
8	Not incurred Chaims to Not Earned Premium	70.25%	67.06%		
9	Claims Paid to Claims Provisions	92.25%	79.00%		
10	Combined Ratio	101.06%	98.43%		
11	Investment Income Ratio	4.07%	3.695		
12	Technical Reserves to Not Written Premium ratio	134.76%	131.041		
13.	Underwriting balance ratio	-0.72%	1.07%		
14	Operating Profit Ratio	454%	5.833		
15	Liquid Assets to Jabilities ratio	37.15%	30.433		
16	Net earning mile	6.02%	6.513		
17	Ridum on net worth ratio	6.32%	7.019		
18	Available Solvency Margin to Required Solvency Margin Rate	2.24	2.13		
19	NPA Ralio		(4) (4)		
	Policyholdurs' Fund				
	Gruna NPA Ratio	NA	N		
	Net NPA Ratio	NA	NA		
	Shareholders' Fund	10296-	1.42		
	Gross NPA Ratio	NA	N		
	Nut NPA Ratio	NA	NA		
20	Dubt Equity Ratio	0.07	0.00		
21	Debt Service Coverage Ratio	29.00	27.75		
22	Interest Service Coverage Ratio	29.00	27.75		
23.	Equity Holding Pattorn	F #200896	1979 B.		
	No. of Shares-(nos.)	58,75,67,681	58,42,72,92		
	Percentage of Shareholding				
	Indian	82.04%	69.21%		
	Foreign	17.96%	30.79%		
000Î		Basic : ₹ 7.35	Basic 2 7.10		
24	Earnings per share	Dhaod ₹ 7.23	Dilutodt ₹ 6.90		
25	Book value per share	115.78	100.84		

Place: Chennai Date: October 29, 2024

....

Place : Delhi

Date : 11.11.2024

ANGEL ONE legd, Off: 601, 6th Floor, Ackruti Star, Cen Mumbai - 400093 SEBI Registration No (3 PUBLIC NO his is to inform that, certain whatsapp groups sing the brand name, logo of Angel One Lim enior official to deceive the general public in I ngel One Limited. Further, application "[An eceptively using the brand name and logo of heae individuals are collecting funds & westment. Investors and General Public are heraby in restors and General Public are heraby in romising guaranteed returns. ngel One Limited will not be liable in any ro nonsequence of dealing with such whatsa pplications. Please nole that any person de	ntrai Road, I Stock Brok TICE is are wrong nited along w believing it to gel One]* at gel One]* at of Angel On- ociated with offering un thormed that in, directly or apacity. Be of manner of fi app / telegn	MIDC, Ar ter): INZC fully and c ith name to be asso pk is wro e Limited Angel Or realistic t Angel O r indirecti cautious c inancial k ram grou	deceptive & mage ociated w ngfully a to deceine Limite returns line Limite y with su of schem oss and ps / rog	is34 ely s of vith and ive ed. on ted uch ted /or jue		In Market Sms	Mar sig ts, Mon fo book reacht nail orde	ht (your c bs to 5 er@bsr	Satur Satur 7575 o nail.in	day or		ndar		सार्वफानिक रहे सुद्धाना आम जनता को एतपढ़ारा सुखित किया जाता है कि हमारे संसार्थ मुकूट फाइंताला ति. हास 12°, 13°, 14°, 15°, 16° November 2024 के विधक अमुख्यों की-एनपीए खातों, आयोतित तीने वाली सार्वजानिक शिक्षमों कुछ अपसिय कारणों से स्वतीत कर यी गई है और जब 03°, 04°, 05°, 06°, 07° December 2024 को सार्वजानिक गीलामी पुनः नियंतित की गई है और जब 03°, 04°, 05°, 06°, 07° December 2024 को सार्वजीनेक गीलामी पुनः नियंतित की गई है और जब 03°, 04°, 05°, 06°, 07° December 2024 को सार्वजीन कर्गाता के जलिस कि गई है। सार्यजनिक गीलामी का स्वाम प्य समय वहीं किया हमारे कताइट की संबंधित कर्जपार के जलिस कि गा जा पुना है। किसी में सार्यजन्म से तिए, इच्छुक व्यक्ति हमारे कताइट की संबंधित शासा में साम्यां कर सावते हैं। कोहली एषठ सोस्टी, एडवोकेट ए 59ए, पहली मॉखिल, लाखपत नगरनी, नई दिल्ली - 110024 याहक गीलामी की निश्वीली तिथि से पहले हमारे कताइट की वकाया राति का नुगतान करके अपने गिरवी रखे गडनों को निश्वीली तिथि से पहले हमारे कताइट की वकाया राति का नुगतान करके अपने गिरवी रखे गडनों को क्रियेसिय स्वर्थ संबद्ध कि आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com या 7824886464, 7994452461 पर कॉल करके संबर्ध कर सकते है। कायाध्यक्ष : इम्प्रमुख मांहा का बाय के रविद्दतिकप्र करनों जा करके संबर्ध कर सकते है।
is/her own risk and responsibility.	E.c.	ANGEL	-						11.511	1033	Ula	nuar		30 दिनों के धीसर घेजे।
	800	161165	Sd/	6							A.C. 14.59 (1997)			
)ate : 12.11.2024	Auth	orized S	lignator	ry										
													lictore the Central Government Registrar of Companies, Dethi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of	(करणोरेट पहचान सच्या L74899DL1993PLC063579) (करणोरेट पहचान सच्या L74899DL1993PLC063579) पंजीकृत कार्यालय जीएफ-1-ए, б, देविका टॉकर, नेडरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 कारणोरेट कार्यालय सी-40, रोक्टर 59, नीयवा, जिला गौतम बुधा नगर, उजप्र, इण्डिया - 20
Reg. Office:- B-218 Safdarjun STATEMENT OF U		Delhi -1100	CIN:L748 29 Tel 416 RESULTS	99DL 1988 850347 Em S FOR THE	PL031191 ail ID info	gbagla-gro		bsite.www	bagia-grou R, 2024	up.com		ED	Registrar of Companies, Delhi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act. 2008 and nui: 47 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 in the matter of the Limited Lubility Partnership Act. 2008, Section 13 (3) AND In the matter of TRIANGULUM CONSULTING LLP Piot No.37, B/M, G/F, F/F Laipat Nagar-III, Link Road, South Delhi, NEW DELHI, Delhi, India, 110024, Petitioner	कारपारंट कायालय ' सांभिध, सकटर 59, नायवा, जिला नातम नूम नगर, उठवुठ झाण्डया - 20 दूरमाष : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; इंगेल : rsi@rsystems.co के के सामांष के सोटा पर कर कटौती के विषय में सूचना और रिकार्ट विथि की ज एतदद्वारा सूचना प्रयान की जाती है कि आर सिस्टमस इन्टरनेशल लिमिटेड ('आर सिस्टम्स'/'कम्पनी') के 1 उनकी नवम्बर 08, 2024, को सम्पन्न बैठक में दिसम्बर 31, 2024 को समापा वित्तीय के लिए रूठ 1/- के रूठ 6.50/- प्रति इक्वीटी येवर के द्वितीय अंतरिंग लागांष की घोषणा की है। उपरांका आंतरिंग लागांष का मुग
	UNAUDITED F	Delhi -1100 INANCIAL Quarter enc	CIN:L748 29 Tel 416 RESULTS Stand	99DL 1988 850347 Em S FOR THE Islone Half Yee	PL031191 rail ID info E QUARTE ar ended	@bagla-gro R ENDED / Year ended	Sup.com,we	bsite.www EPTEMBE uarter ende	bagla-grou R, 2024 Consi d 1	up.com olidated Half Yea	R: rrended]	s. In Lakhs Year Endod	Registrar of Companies, Dethi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 in the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND In the matter of TRIANGULUM CONSULTING LLP Piot No-37, BM, GF, FF Lajnat Nagae-III. Link Road, South Deithi, NEW DELHI, Deithi, India, 110024, Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of	कारपारट कावालय ' सो-40, सकटर 59, नायव, जिला नातन नूम नगर, उठक, झाण्डया - 20 दूरमाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रे सेयरधारकों को लामांष के स्रोत पर कर कटौती के विषय में सूचना और सिकार्ट विथि की ज एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि आर सिस्टमस इन्टरनेशल लिमिटेड ('आर सिस्टम्स'/'कम्पनी') के उनकी नवम्बर 08, 2024, को सम्पन्न बैठक में दिसम्बर 31, 2024 को समाप्त वितीय के लिए रूठ 1/- के रूठ 6.50/- प्रति इक्वीटी शेयर के द्वितीय अंतरिंग लामांष की घोषणा की है। उपरोक्त अंतरिंग लामांष का मुग 2024 अथवा जससे पहले किया जायेगा।
STATEMENT OF U	30-09-24	Delhi -1100 INANCIAL Quarter end 30-05-24 Unaudited L	CIN:L748 29 Tel 416 RESULTS Stand ded 30-09-23 jnaudited	99DL 1988 850347 Em S FOR THE later 30-99-24 Unaudited	PL031191 ail ID info E QUARTE ar ended 30-86-24 Unaudited	Bbagla-gro R ENDED / Year ended 31-03-24	AS ON 30, S 30-09-24 Unaudited	bsite www EPTEMBE uarter ende 30-05-24 Unsudited	bagla-grou R, 2024 Consi d 30-09-23 Unaudited V	up.com olidated Half Ye: 30-09-24 Unaudited	R: 30-06-24 Unaudited	s. in Lakhs Year Endod 31-03-24	Registrar of Companies, Dethi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Imited Labitity Partnership Act. 2008 and ule 71 of the Limited Labitity Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Labitity Partnership Act. 2006, Section 13 (3) AND In the matter of TRIANGULUM CONSULTING LLP Piol No.37, BrM, G/F, F/F Laipat Nagar-III, Link Road, South Dethi, NEW DELHI, Dethi, India, 110024, Petitioner Notice Is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi under section 13 (3) of the Limited Labitity Partnership Act, 2008 seeking	कारपारंट कायालय ' सो-40, सकरर 59, नायव, जिला गोतम बूच नगर, उठप्र, झाण्डवा - 20 दूरमाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com: ईनेल : rsi@rsystems.co के सेयरधारकों को लामांष के खोत पर कर कटौती के विषय में सूचना और रिकार्ट विथि की ज एतदद्वारा सूचना प्रयान की जाती है कि आर सिस्टमस इन्टरनेशल लिमिटेड ('आर सिस्टम्स'/'कम्पनी') के 1 उनकी नवम्बर 08, 2024, को सम्पन्न बैठक में दिसम्बर 31, 2024 को समापा वित्तीय के लिए रू० 1/- के रू० 6.50/- प्रति इक्यीटी शेयर के द्वितीय अंतरिंग लामांष की घोषणा की है। उपरोक्त अंतरिंग लामांग का युग 2024 अथवा जसरों पहले किया जायेगा। आयकर अधिनियम, 1961, यथासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, लामांष का मुगतान करते समय शेयरघारक की रिवाती एवं अपेक्ति प्रसंत्रत वरतविक्ते के आधार पर, कम्पनी लागू दरों से सोत पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी।
STATEMENT OF U PARTICULARS	30-09-24	Delhi -1100 INANCIAL Quarter enc 30-05-24	CIN:L748 29 Tel 416 RESULTS Stand ded 30-09-23	99DL 1988 850347 Em S FOR THE later 30-99-24 Unaudited	PL031191 ail ID info E QUARTE ar ended 30-86-24 Unaudited	Bbagla-gro R ENDED / Year ended 31-03-24	AS ON 30, S	bsite.www EPTEMBE uarter ende 30-05-24	bagla-grou R, 2024 Consi d 30-09-23	up.com olidated Half Ye: 30-09-24	Rs 10-06-24	s. in Lakhs Year Endod 31-03-24	Registrar of Companies, Dethi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and nule 17, of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 in the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND In the matter of TRIANSQUUM CONSULTING LLP Piol No.37, BrM, GrF, F/F Laipat Nagar-III, Link Road, South Dethi, NEW DELHI, Dethi, India, 110024, Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Dethi under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registreed office from	कारपारंट कायालय ' सो-40, सकरर 59, नायक, जिला नातम बूच नगर, उठक, झाण्डया - 20 दूरमाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; इंगेल : rsi@rsystems.co रे रे र
PARTICULARS	UNAUDITED F	Delhi -1100 INANCIAL Guarter end 30-05-24 Unaudited L	CIN:L748 29 Tel 416 RESULTS Stand ded 30-09-23 jnaudited	99DL 1988 850347 Em S FOR THE later 30-89-24 Unaudited	PL031191 ail ID info E QUARTE ar ended 30-86-24 Unaudited	Bbagla-gro R ENDED / Year ended 31-03-24 Audited	AS ON 30, S 30-09-24 Unaudited	bsite www EPTEMBE uarter ende 30-05-24 Unsudited	bagla-grou R, 2024 Consi d 30-09-23 Unaudited V	up.com olidated Half Ye: 30-09-24 Unaudited	R: 30-06-24 Unaudited	s. In Lakhs Year Ended 31-03-24 Audited	Registrar of Companies, Dethi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Imited Labitity Partnership Act. 2008 and ule 71 of the Limited Labitity Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Labitity Partnership Act. 2006, Section 13 (3) AND In the matter of TRIANGULUM CONSULTING LLP Piol No.37, BrM, G/F, F/F Laipat Nagar-III, Link Road, South Dethi, NEW DELHI, Dethi, India, 110024, Petitioner Notice Is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi under section 13 (3) of the Limited Labitity Partnership Act, 2008 seeking	कारपारंट कावालय ' सो-40, सकरर 59, नायक, जिला नातम बूच नगर, उठक, झाण्डवा - 20 दूरमाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; इंगेल : rsi@rsystems.co केवरधारकों को लामांष के खोत पर कर कटौती के विषय में सूचना और सिकटर्स /*कम्पनी') के 1 तनकी नवम्बर 08, 2024, को सम्पन्न बैठक में दिसम्बर 31, 2024 को समाघ वित्तीय के लिए रूठ 1/- के रूठ 6.50/- प्रति इक्वीटी शेयर के द्वितीय अंतरिंग लामांग की घोषणा की है। उपरांकत अंतरिंग लामांग का गुम 2024 अथवा जससे पहले किया जायेगा। आयकर अधिनियम, 1961, यवासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, लामांग का गुमतान करते समय शेयरधारक की स्विति एवं अपेक्षित प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कम्पनी लामू दरों से सोत पर कर कटौती (टीक्षेएस) करेगी। विभिन्न श्रेणियों के शेयरचारकों के लिए टीक्षेएस को कम दरों की छूट/आवेदन के लिए श्रेयरघारक द्वारा प्रस्तुत वस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://www.rsystems.com/communication-on-tax-deduction/
PARTICULARS Utal Income from operations (nel) Até Profit / (Loss) for the period before Tax. Esceptional and Air Extraordinary (terms) et Profit / (Loss) for the period before Tax	JNAUDITED F 30-09-24 Unaudited U 8.531	Delhi -1190 INANCIAL Quarter end 30-05-24 Unaudited U 6,518	CIN:L748 29 Tel 416 RESULTS Stand ded 30-09-23 jnaudited & 193	99DL1988 650347 Em S FOR THE Half Yee 30-99-24 Unaudited 15,049	PL031191 ail ID info E QUARTE ar ended 30-86-24 Unaudited 16,406	Bbagla-gro R ENDED / Year ended 31-03-24 Audited 30,716	Sup. com, we AS ON 30, S 30-09-24 Unaudited 8,531	bsite.www EPTEMBE Uarter ende 30-05-24 Unsudited 6,518	bagla-grou R, 2024 Consi d 30-09-23 Unaudited 1 0.193	up.com olidated Half Ye. 30-09-24 Unaudited 15,040	Rs 30-06-24 Unaudited 16,406	s. In Lakhs Year Ended 31-03-24 Audited 30,716	Registrar of Companies, Dethi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and nule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 in the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND In the matter of TRIANSQUUM CONSULTING LLP Piol Mo.37. BrM, GrF, F/F Laipat Nagar-III, Link Road, South Dethi, NEW DELHI, Dethi, India, 110024, Petitioner Notion is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Dethi under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "DELHI" to the state of "HARYANA". Any person whose interest is Neely to be affected by the proposed change of the registered office for the LLP may deliver or cause to be delivered on	कारपारंट कावावय ' सो-40, सकटर 59, नायव, जिला नातम बूच नगर, उठक, झाण्डवा - 20 दूरमाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्रियार रूप्रेवना प्रयान की जाती है कि आर सिस्टमस इन्टरनेशल लिमिटेड ('आर सिस्टम्स'/'कम्पनी') के एतदद्वारा सूचना प्रयान की जाती है कि आर सिस्टमस इन्टरनेशल लिमिटेड ('आर सिस्टम्स'/'कम्पनी') के उनकी नवम्बर 08,2024, को सम्पन्न बैठक में दिसम्बर 31,2024 को समापा वितीय के लिए रूठ 1/- के रूठ 6,50/- प्रति इक्वीटी शेयर के द्वितीय अंतरिंग लागांग की घोषणा की है। उपरोक्त अंतरिंग लागांग का गुग 2024 अथवा उससे पहले किया जावेगा। आयकर अधिनियम, 1961, यवासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, लागांग का गुगतान करते समय शेयरघारक की स्थिति एवं अपेक्षित प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कम्पनी लागू दरों से सोत पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी। विगिन्न क्षेणियों के शेयरघारकों के लिए टीडीएस को कम दरों की छूट/आवेदन के लिए शेयरघारक द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://www.rsystems.com/communication-on-fax-deduction/ शेवरायरकों से लिंक इनताइम इण्डिया प्राहवेट लिमिटेड, कन्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तातरण एजेन
PARTICULARS Utel income from operations (net) lef Profit (Loss) for the period before Tax, Exceptional and for Extraordinary items) lef Profit (Loss) for the period before Tax fier Exceptional and for Extraordinary items) lef Profit (Loss) for the period after Tax	30-09-24 30-09-24 Unaudited 1 8,531 719 719	Delhi -1100 INANCIAL Quarter enc 30-05-24 Jinauditad U 0.518 284 284	CIN:L748 29 Tel 416 RESULTS Stand ded 39-08-23 Jnaudited & 193 562 562	990L1988 550347 Em S FOR THE Half Yes 30-99-24 Unaudited 15,049 1,003 1,003	PL031191 ail ID info E QUARTE 38-86-24 Unaudited 16.406 1,053 1,053	Bbagla-gro R ENDED / Year anded 31-03-24 Audited 30,716 2,185 2,185	oup.com,we AS ON 30, S 30-09-24 Unaudited 8,531 719 719	bsits.www EPTEMBE uarler ende 30-8-24 Unaudited 5,518 284 284	bagla-grou R, 2024 Const d 30-09-23 Unaudited 9 8,193 562 562	up.com olidated Half Ye. 38-69-24 Unsudited 15,049 1,003 1,003	R: 30-06-24 10-40-24 10-40-54 1,053 1,053	s. In Lakhs Year Ended 31-03-24 Audited 30.716 2,185 2,185	Registrar of Companies, Dethi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Labihy Partnership Act. 2008 and ule 77 of the Limited Labihy Partnership Rules, 2009 in the matter of the Limited Labihy Partnership Act. 2008, Section 13 (3) AND In the matter of TRIANGULUM CONSULTING LLP Piot No.37, B/M, G/F, F/F Laipat Nagar-III, Link Road, South Dethi, NEW DELHI, Dethi, India, 110024, Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Dethi under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "DELH" to the state of "RARYANA". Any person whose intensis is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LI-P my deliver or cause to be delivered on tend by Registered post of Ns/ther objections	कारपारंट कावालय ' सो-40, सकरर 59, नायक, जिला गीतम बूच नगर, उठक, झाण्डवा - 20 दूरमाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रे रेग्सरकों को लामांष के रोठा पर कर कटौती के विषय में सूचना और सिकार्ट विथि की ज एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि आर सिस्टमस इन्टरनेशल लिमिटेड ('आर सिस्टम्स'/'कम्पनी') के 1 उनकी नवम्बर 08, 2024, को सम्पन्न बैठक में दिसम्बर 31, 2024 को समाप्त वितीय के लिए रूठ 1/- के रूठ 6.50/- प्रति इक्वीटी शेयर के द्वितीय अंतरिंग लामांष की घोषणा की है। उपरोक्त अंतरिंग लामांष का पुग 2024 अथवा उससे पहले किया जायेगा। आयकर अधिनियम, 1961, यवासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, लामांष का मुगतान करते समय शेयरघारक के रिवाति एवं अपेक्षित प्रस्तुत दस्तावेजों के आखार पर, कम्पनी लामू दरों से सोता पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी। विभिन्न श्रेणियों के शेयरघारकों के लिए टीडीएस को कम दरों की छूट/आवेदन के लिए श्रेयरघारक द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित चस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://www.rsystems.com/communication-on-tax-deduction/ शेयरघारकों से लिंक इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्तूर एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन वेबलिक https://liphweb.linkintime.co.informsreg/submission-of-form-150-151.html पर नवम्बर 19, 2024 तक
PARTICULARS Otal income from operations (nell) Let Profit (Loss) for the period before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items) Let Profit (Loss) for the period before Tax after Exceptional and /or Extraordinary items) Let Profit (Loss) for the period after Tax after Exceptional and /or Extraordinary items)	UNAUDITED F 30-09-24 Unaudited 1 8,531 719	Delhi -1100 INANCIAL Guarter end 30-06-24 Unaudited L 6,518 264	CIN:L748 29 Tel 416 RESULTS Stand ded 39-09-23 Jnaudited 8,193 562	99DL 1988 550347 Em 5 FOR THE alone Half Yec 30-99-24 Unaudited 15,049 1,003	PL031191 ail ID infot E QUARTE ar ended 38-86-24 Unaudited 16,406 1,053	Bbagla-gro R ENDED / Year anded 31-03-24 Audited 30,716 2,185	2009. com, we AS ON 30, S 30-09-24 Unaudited 8,531 719	bsite.www EPTEMBE 30-06-24 Unsudited 6,518 264	bagla-grou R, 2024 Consi d 30-09-23 Unaudited t 8,193 562	up.com Half Ye 30-89-24 Unsudited 15,048 1,003	Rs 30-06-24 Unaudited 16,406 1,053	s. In Lakhs Year Ended 31-03-24 Audited 30.716 2,185	Registrar of Companies, Dethi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and nule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 in the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND In the matter of TRIANSQUUM CONSULTING LLP Piol Mo.37. BrM, GrF, F/F Laipat Nagar-III, Link Road, South Dethi, NEW DELHI, Dethi, India, 110024, Petitioner Notion is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Dethi under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "DELHI" to the state of "HARYANA". Any person whose interest is Neely to be affected by the proposed change of the registered office for the LLP may deliver or cause to be delivered on	कारपारंट कावावय ' सो-40, सकरर 59, नायव, जिला गीतम बूच नगर, उठक, झॉण्डवा -20 दूरमाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्रेसाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्रेसाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्रेसाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्रेसाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्रेसाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्रेसाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : sww.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्रेसाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : sww.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्रेसाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : sww.rsystems.co रेट्रेसा : रेट्रेसा : क्या का वायेगा : आयकर कायिनियम, 1961, ययाशंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, लामांग का गुगतान करते समय शेयरघारक की रिथाति एवं अमेहित प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कम्पनी लामू दरों से सोत पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी : यिगिन्न अणियों के श्रेयरघारकों के लिए टीडीएस को कम दरों की छूट/आयेदन के लिए शेयरघारक द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित वस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://www.rsystems.com/communication-on-tax-deduction/ शेयरघारकों से लिंक इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी के रंजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन वेबलिंक https://lipiweb.linkintime.co.informsreg/submission-of-form-15g-15h.html पर नवम्बर 19, 2024 तक अपलोड करने को अनुरोघ है।
PARTICULARS Util income from operations (rel) Let Profit / (Loss) for the period Defore Tax, Exceptional and /or Extraordinary terms) Let Profit / (Loss) for the period before Tax after Exceptional and /or Extraordinary terms) Let Profit / (Loss) for the period after Tax after Exceptional and /or Extraordinary items) atel Comprehensive Income for the period	UNAUDITED F 30-09-24 Unaudited U 8,531 719 719 537	Delhi -1100 INANCIAL Quarter enc 30-05-24 Jinauditad U 0.518 284 284	CIN:L748 29 Tel 416 RESULTS Stand ded 39-08-23 Jnaudited & 193 562 562	990L1988 550347 Em S FOR THE Half Yes 30-99-24 Unaudited 15,049 1,003 1,003	PL031191 ail ID info E QUARTE 38-86-24 Unaudited 16.406 1,053 1,053	Bbagla-gro R ENDED / Year anded 31-03-24 Audited 30,716 2,185 2,185	oup.com,we AS ON 30, S 30-09-24 Unaudited 8,531 719 719	bsits.www EPTEMBE uarler ende 30-8-24 Unaudited 5,518 284 284	bagla-grou R, 2024 Const d 30-09-23 Unaudited 9 8,193 562 562	up.com olidated Half Ye. 38-69-24 Unsudited 15,049 1,003 1,003	R: 30-06-24 10-40-24 10-40-54 1,053 1,053	s. In Lakhs Year Ended 31-03-24 Audited 30.716 2,185 2,185	Registrar of Companies, Dethi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Labihy Partnership Act. 2008 and ule 71 of the Limited Labihy Partnership Rules, 2009 in the matter of the Limited Labihy Partnership Act. 2008, Section 13 (3) AND In the matter of TRIANGULUM CONSULTING LLP Piot No.37, B/M, G/F, F/F Lapat Nagar-III, Link Road, South Dethi, NEW DELHI, Dethi, India, 110024, Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Dethi under section 13 (3) of the Limited Liabihy Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "DELH" to the state of "NARYANA". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered of the LLP may deliver or cause to be delivered or tiend by Registered post of Ns/her objections supported by an affidavit to the Registrar of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of	कारपारंट कावावय ' सो-40, सकटर 59, नायव, जिला गोतम बूच नगर, उठव, झाण्ठवा - 20 दूरमाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्साप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्साप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्साप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्साप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्साप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्साप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्साप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com; ईनेल : rsi@rsystems.co रेट्साप : +91 120 4303500; वेबसाइट : 12, 2024 को समाप : वितीय के लिए रूप् रेट्साप : +91 120 4303500; वेबसाइट : 12, 2024 को समाप : वितीय के लिए रूप् रेट्साप : +91 120 4303500; वेबसाइट : 12, 2024 को समाप : वितीय के लिए रेट्साप : क्यांग का गुग 2024 अथवा उससे पहले किया जायेगा : आयवर लियिनियम, 1961, यवासांशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, लागांग का गुगतान करते समय शेयरघारक की रियाति एवं अपेक्षित प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कम्पनी लामू दरों से सोत पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी : विगिन्न अणियों के शेयरघारकों के लिए टीडीएस को कम दरों की छूट/आवेदन के लिए शेयरघारक द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://www.rsystems.com/communication-on-tax-deduction/ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
PARTICULARS Util Income from operations (nel) InterProfit / (Loss) for the period Perform Tax, Ecceptional and Arr Extraordinary items) Inter Exceptional and Arr Extraordinary items Inter Except	UNAUDITED F 30-09-24 Unaudited U 8,531 719 719 537	Delhi -1100 INANCIAL Quarter enc 30-05-24 Jinauditad U 0.518 284 284	CIN:L748 29 Tel 416 RESULTS Stand ded 39-08-23 Jnaudited & 193 562 562	990L1988 550347 Em S FOR THE Half Yes 30-99-24 Unaudited 15,049 1,003 1,003	PL031191 ail ID info E QUARTE 38-86-24 Unaudited 16.406 1,053 1,053	Bbagla-gro R ENDED / Year anded 31-03-24 Audited 30,716 2,185 2,185	oup.com,we AS ON 30, S 30-09-24 Unaudited 8,531 719 719	bsits.www EPTEMBE uarler ende 30-8-24 Unaudited 5,518 284 284	bagla-grou R, 2024 Const d 30-09-23 Unaudited 9 8,193 562 562	up.com olidated Half Ye. 38-69-24 Unsudited 15,049 1,003 1,003	R: 30-06-24 10-40-24 10-40-54 1,053 1,053	s. In Lakhs Year Ended 31-03-24 Audited 30.716 2,185 2,185	Registrar of Companies, Dethi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Imited Liability Partnership Act. 2008 and ule 71 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnership Act. 2008, Section 13 (3) AND In the matter of TRANGULUM CONSULTING LLP Piol No.37, BM, G/F, F/F Laipat Nagar-III, Link Road, South Dethi, NEW DELHI, Dethi, India, 110024, Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi under section 13 (3) of the Imited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "DELHI" to the state of "HARYANK". Any person whose interest is Nedy to be affocted by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered of supported by an affidavit stating the nature of National Supported by an affidavit stating the matter of Companies, Delhi, within 21(twomty one) days	कारपारंट कावालय ' सो-40, सकटर 59, नायवा, जिला गीतम बूच नगर, उठवल, झोण्ठवा - 20 दूरमाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com: ईनेल : rsi@rsystems.co केवरधारकों को लामांष के खोदा पर कर कटौती के विषय में तूचना और रिकार्ट विथि की ज एतदद्वारा सूचना प्रयान की जाती है कि आर सिस्टमस इन्टरनेखल लिमिटेड ('आर सिस्टम्स'/'कम्पनी') के उनकी नवम्बर 08, 2024, को सम्पन्न बैठक में दिसम्बर 31, 2024 को समापा वितीय के लिए रूठ 1/- के रूठ 6.50/- प्रति इक्वीटी शेयर के द्वितीय अंतरिंग लामांष की घोषणा की है। उपरोक्त अंतरिंग लामांग का गुम 2024 अथवा उससे पहले किया जायेगा। आयकर अधिनियम, 1961, थवासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, लामांष का गुमतान करते समय शेयरधारक की रिबाति एवं अपेक्षित प्रस्तुत वस्तावेजों के आधार पर, कम्पनी लामू दरों से सोत पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी। विभिन्न श्रेणियों के शेयरधारकों के लिए टीडीएस को कम दरों की छट्/आवेदन के लिए शेयरघारक द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट https://www.rsystems.com/communication-on-tax.deduction/ श्रेयरधारकों से लिंक इन्दाइम इण्डिया प्राईटे लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एष्ड श्रेयर हस्तांतरण एजेन वेबलिंक https://lip/web.linkirtime.co.in/formsteg/submission-of-form:150-15h.html पर नवम्बर 19, 2024 तक अपलोड करने के अनुरोध है। कर निर्घारण/कटौती के लिए नवम्बर 19, 2024 के बाद प्राप्त किसी भी संवार पर विवार नहीं किया जायेगा।
PARTICULARS Total Income from operations (nel) Add Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items) et Profit / (Loss) for the period before Tax after Exceptional and /or Extraordinary items) et Profit / (Loss) for the period after Tax after Exceptional and /or Extraordinary items) foral Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) and Differ Compr	UNAUDITED F 30-09-24 Unaudited 1 8,531 719 719 537	Delhi -1190 INANCIAL Quarter enc 30-05-24 Unaudited U 6,518 284 284 284 213	CIN:L748 29 Tel 416 RESULTS Stand ded 39-08-23 Jnaudited 8,103 562 562 387	99DL1988 550347 Em 5 FOR THE Jalone Half Yec 30-99-24 Unaudited 15,049 1,003 1,003 750	PL031191 rail ID info E QUARTE ar ended 38-86-24 Unaudited 16:406 1,053 1,053 1,053 810 810	Bbagla-gro R ENDED / 31-03-24 Audited 30,716 2,185 2,185 1,641	oup.com,we AS ON 30, S 30-09-24 Unaudited 8,531 719 719	bsits.www EPTEMBE uarler ende 30-8-24 Unaudited 5,518 284 284	bagla-grou R, 2024 Const d 30-09-23 Unaudited 9 8,193 562 562	up.com olidated Half Ye. 38-69-24 Unsudited 15,049 1,003 1,003	R: 30-06-24 10-40-24 10-40-54 1,053 1,053	s. In Lakhs Year Ended 31-03-24 Audited 30.716 2,185 2,185	Registrar of Companies, Dethi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and ule 71 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND In the matter of TRIANQULUM CONSULTING LLP Piot No.37, BVM, G-F, F/F Laipat Nagar-III, Link Road, South Dethi, NEW DELHI, Dethi, India, 110024, Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Dehi under section 31 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "DELHI" to the state of "HARYANA". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered of supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Dehi, within 21 (hverty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at the registrared office at the address mentioned above.	कारपारंट कावावय (सो-40, संकटर 59, नायवा, ठावा नावम बूच नगर, उठक, झॉण्टवा - 20 दूरमाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com: ईनेल : rsi@rsystems.co सेयरधारकों को लामांष के खोत पर कर कटौती के विषय में सूचना और रिकार्ट विथि की ज एतदद्वारा सूचना प्रयान की जाती है कि आर सिस्टमस इन्टरनेशल लिमिटेड ('आर सिस्टम्स'/'कम्पनी') के 1 उनकी नवम्बर 08, 2024, को सम्पन्न बैठक में दिसम्बर 31, 2024 को समापा वित्तीय के लिए रूठ 1/- के रूठ 6.50/- प्रति इक्वीटी शेयर के द्वितीय अंतरिंग लामांष की घोषणा की है। उपरोक्त अंतरिंग लामांग का युग्त 2024 अववा उससे पहले किया जायेगा। आयकर अधिनियम, 1961, यवासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, लामांष का युगतान करते समय शेयरघारक क रिवति एवं अपेक्षित प्रसंख दस्तावेजों के आखार पर, कम्पनी लामू दरों से सोता पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी। विभिन्न अणियों के शेयरघारकों के लिए टीडीएस को कम यरों की छूट/आवेदन के लिए शेयरघारक द्वारा प्रसुद अपेक्षित परतावेज कम्पनी की वेबसाइट https://www.rsystems.com/communication-on-tax-deduction/ शेयरघारकों से लिंक इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन वेबलिंक https://lipiweb.linkintime.co.informsreg/submission-of-form-15g-15h.html पर नवम्बर 19, 2024 तक अपसिड करने को अनुरोध है। कर निर्घारण/कटौती के लिए नवम्बर 19, 2024 के बाद प्राप्त किसी भी संवार पर विवार नही किया जायेगा। शेयरघारकों को नवम्बर 11, 2024 को ई–मेल द्वारा मेजी गई सूचना कम्पनी की वेबसाइट i.e. www.rsystems.co
STATEMENT OF U	UNAUDITED F 30-09-24 Unaudited E 8.531 719 719 537 t 537	Delhi -1100 INANCIAL Quarter enc 30-06-24 Jinaudited U 6,510 284 284 284 212 213	CIN:L748 29 Tel 416 RESULTS Stand ded 39-08-23 Jhaudited & 193 562 562 562 387 387	99DL1988 550347 Em 5 FOR THE Jalone Half Yec 30-99-24 Unaudited 15,049 1,003 1,003 1,003 750 750	PL031191 rail ID info E QUARTE ar ended 38-86-24 Unaudited 16:406 1,053 1,053 1,053 810 810	Bbagla-gro R ENDED / 31-03-24 Audited 30,716 2,185 2,185 1,641 1,641	AS ON 30, S 30-09-24 Unaudited 6,531 719 719 537	bails.www EPTEMBE uarler ende 30-06-24 Unaudited 6,518 254 254 254 254	bagla-grow R, 2024 Const d 30-09-23 Unaudited 1 8,193 562 562 562 387	up.com Haif Ye. 30-89-24 Unaudited 15,040 1,003 1,003 750	Ri 30-06-24 Unaudited 16,406 1,053 1,053 810	s. in Lakhs 31-03-24 Audited 30.716 2,185 2,185 1,841	Registrar of Companies, Dethi In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Labihy Partnership Act. 2008 and nui-7 of the Limited Labihy Partnership Rules, 2009 in the matter of the Limited Lubihy Partnership Act. 2008, Section 13 (3) AND In the matter of TRIANGULUM CONSULTING LLP Piot No.37, B/M, G/F, F/F Lajoat Nagar-IIL Link Road, South Dethi, NEW DELHI, Dethi, India, 110024, Petitioner Notoe is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Dethi under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registreed office from the stato of "DELHI" to the sisse of "HARYANA". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registreed office from the LLP may deliver or cause to be delivered on supported by an affdavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registreed of Companies, Delhi within 21(townty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at the registreed office of the supported by an affidavit of the Rogistreed office with a copy to the petitioner LLP at the registreed office of the supported office and the state of the Rogistreed office and Supported by an affidavit of the Rogistreed office with a copy to the petitioner LLP at the registreed office of the supported office and the state of the	कारपारंट कावावय (हो-40, सकटर 59, नायव, किला नातम बूच नगर, उठक, झोण्ठवा - 20 दूरमाप : +91 120 4303500; वेबसाइट : www.rsystems.com: इंनेल : (डॉ@rsystems.co सेयरसारकों को सामांघ के सोस पर कर कटौती के विषय में सूचना और रिकार्ट तिथि की ज एसदद्वारा सूचना प्रयान की जाती है कि आर सिस्टमस इन्टरनेशल लिमिटेड ('आर सिस्टम्स'/'कम्पनी') के 1 उनकी नयम्बर 08, 2024, को सम्पन्न बैठक में दिसम्बर 31, 2024 को समापा विसीय के लिए रूo 1/- के रूo 6.50/- प्रति इक्वीटी शेयर के द्वितीय अंतरिंग लामांग की घोषणा की है। उपरोक्त अंतरिंग लामांग का गुफ 2024 अथवा उससे पहले किया जायेगा। आयकर अधिनियम, 1961, यवासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार, लामांग का गुपान करते समय शेयरघारक क स्थिति एवं अपेक्षित प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कम्पनी लामू दरों से सोता पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी। विभिन्न श्रेणियों के शेयरघारकों के लिए टीडीएस को वन्म दरों की छूट्/आवेदन के लिए शेयरघारक द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कम्पनी लामू दरों से सोता पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी। विभिन्न श्रेणियों के शेयरघारकों के लिए टीडीएस को वन्म दरों की छूट/आवेदन के लिए शेयरघारक द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर, कम्पनी लामू दरों के सूट/आवेदन के लिए शेयरघारक द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित प्रस्तुत इस्तावेचा प्राईवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिसट्रार एण्ड शेयर हस्तावरण एजेन वेबलिंक https://lip/web.linkintime.co.informsreg/submission-ol-form-150-15h.html पर नवम्बर 19, 2024 तक अपलोड करने को अनुरोध है। कर निर्हारण/कटौती के लिए नवम्बर 19, 2024 के बाद प्राच किसी भी संवार पर विवार नहीं किया जायेगा। शेयरघारकों को नवम्बर 11, 2024 को ई-मेल हारा भेजी मई सूचना कम्पनी की वेबसाइट i.e. www.rsystems.s स्टोंक एक्सावेकों की वेबसाइटों, जहां पर कम्पनी के शेयरां सूचीबद हैं i.e. नेशनल स्टोंक एक्सावेक्त ऑफ इ ''''''' के विनियन्त की वेबसाइटों, जहां पर कम्पनी के शेयरां सूचीवद्व है i.e. नेशनल स्टोंक एक्सावेक्त्त ऑफ इ ''''''''''''''''''''''''''''''''''''

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites, matterly The Bombay Stock Exchange Limited - www.beeinda.com, and the Cumpany's website www.bagle-group.com.

dustan Adhesives limite

Ravi Kumar Agarwal M.S.Bagla Directo

Managing Directo DIN- 91425646 DIN- 00114359



निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे भए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 24/11/2024 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर बाहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएमी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी दिनांकः नवम्बर 11, 2024 रथान : नीयडा (उ०प्र०)

भास्कर दुवे (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)



Icane SI.	Particulars	Three months ended on 30 September 2024 (Unaudited)	30 September 2024	Three months ended on 30 September 2023 (Unaudited)
1	Total revenue from operations	12,221.56	24,440.57	8,194.71
2	Profit/(loss) before exceptional items and tax	(39.10)	266.16	330.05
3	Profit/(loss) before tax	(39.10)	266.16	190.17
IRIS and the 4	Net profit /(Loss) for the period	(49.21)	175.09	358.23
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	861.13	1,155.02	255.00
6 C	Equity Share Capital (face value of INR.1/- each)	1,206.27	1,206.27	1,205.86
21427 3007 7	Other equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet			3
8	Earnings Per Share (of INR, 1/- each) (not annualised for quarters) (a) Basic (b) Diluted	0.00* 0.00*	0.25	0.28

जाएगा गिरवियों की सूची:

राजस्थानअलवरबिबिरानी-जीएल,329230700000608,329230730005963,कठुमर-जीएल,329970700000472,0494, लक्ष्मणगढ-जीएल,329120700000752,0763,0768,0781,329120730006206,मुंडावर-जीएल,329950700000436, रामगढ-जीएल,330080730003969,बांसवाडाघाटोल-जीएल,32991070000636,भीलवाडाआसिंद-जीएल,3285407000 00684,0686,0693,कोटरी-जीएल,329130730003305,बूंद्रीकेशोरायपाटन-जीएल,328760700000983,नैनवा-जीएल,32 8400730005045, चितौडगढबेगून-जीएल, 328580700001303, उछाणडअ, चआउठाथअठ 1, 328860700000722, गंगानगर घरसाना-जीएल,328750700001663,श्री करनपुर-जीएल,328710730000326,हनुमानगढरावतसर-जीएल,32825070000 1344,1350,1363,जयपुरबस्सी-जीएल,328150700000720,चाकस्-जीएल,330070700000426,0433,0446,0448, 0455,330070730000852,उम्राउम्रा-जीएल,328240700001305,1342,1354,1370,मोपी विहार मोविंदपुर-जीएल,34201 070000161,जॉबनर गोल्ड लोन-जीएल,328790700000533,केसर नगर चौराहा-जीएल,34189070000169,0179, 0188,341890750000001,कूकास-जीएल,329980700000656,329980730000220,पोटा-जीएल,32817070000134 3,1350,1364,फागी-जीएल,327780700000935,0938,0946,0958,0967,फुलेरा-जीएल,328220700000865,त्रिवेणी नगर-2-जीएल,341920700000224,0245,वद्याधर नगर मंदरि मोर्ड जी.एल342400700000102,झुंझुनूबुहाना-जीएल, 341360700000398,सूरजगढ़-जीएल,340890700000371,0381,उदयपुरवाटी-जीएल,328260700001006,जोथपुर भोपालगढ़-जीएल,330120700000469,0485,0496,ओसियां-जीएल,330090700000277,0278,0286,कोटाइटावा जीएल, 328720700001091,कोटपूतलीकोटपूतली-जीएल,328160700001087,1088,1104,1111,1132,नागौरहेगाना-जीएल, 341020700000420,गंगानगरअनूपगढ़-जीएल,328910700001015,राजसमंदरेलमगरा-जीएल,328640700001148, 1157,1173,1175,328640730002731,2948,सीकरअजीतगढ-जीएल,341830700000263,0270,0276,टोंकटोडारायसिंह जीएल,328180700000565,0690,0705,328180730000570,0571,उदयपुरफतेहनगर-जीएल,329190700000803,329 190730004605,4764,गोगुन्दा-जीएल,329140700000686,0700,

उपरोक्त नीलामी में भाग लेने के इच्छक व्यक्तियों को निम्नलिखित का पालन करना होगा:- इच्छक बोलीकर्ताओं को ईएमडी के रूप में रू.10,000/- नीलामी के दिन नकद जमा कराना होगा (असफल बोलीकर्ताओं को बाद में लौटा दिया जाएगा). बोलीकर्ता को वैध पहचना प्रमाण/पैन कार्ड साथ लेकर आना होगा. अधिक जानकारी के लिए कृपया 9542500664 पर संपर्क करें.

अधिकृत अधिकारी आशिर्वाद माइको फायनांस लि.

Notes:



COSTA

- 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Regulations) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.dil-rjcorp.com).
- 2. The previous period/year numbers have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period/year presentation. The impact of such reclassification/regrouping is not material to the financials results.
 - These standalone and consolidated financial results for the guarter and half year ended on 30 September 2024 have been reviewed and recommended for approval by the Audit, Risk Management and Ethics Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Devyani International Limited ("DIL" or "the Company") at their respective meetings held on 11 November 2024. The Statutory Auditors have conducted a limited review of these financial results.

COSTA	SI. No.	Particulars	Three months ended on 30 September 2024 (Unaudited)	Year to date 30 September 2024 (Unaudited)	Three months ended on 30 September 2023 (Unaudited)
	1	Total revenue from operations	8,356.37	16,755.21	7,787.39
K	2	Profit before exceptional items and tax	33.11	429.46	240.45
	3	Profit before tax	33.11	429.46	240.45
	4	Net profit /(Loss) for the period	10.21	326.75	411.01
	5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,91	323.00	410.64

Place Dated